

PRACTICE PAPER

CLASS-XII

SUBJECT : GEOGRAPHY (029)

समय : 3 घण्टे

Time Allowed: 3 Hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks: 70

सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए:

1. इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है - खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
3. खण्ड क- प्रश्न संख्या 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।
4. खण्ड ख - प्रश्न संख्या 18 एवं 19 स्रोत आधारित प्रश्न हैं।
5. खण्ड ग- प्रश्न संख्या 20 से 23 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए।
6. खण्ड घ- प्रश्न संख्या 24 से 28 दीर्घ- उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 120 से 150 शब्दों में लिखा जाना चाहिए।
7. खण्ड ङ- प्रश्न संख्या 29 व 30 मानचित्र आधारित प्रश्न हैं।

General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

1. This questions paper contains 30 questions. All questions are compulsory.
2. This question paper is divided into five sections – Sections A, B, C, D and E.
3. Section A - Questions no. 1 to 17 are multiple choice (MCQ) type questions.
4. Section B - Questions no. 18 and 19 are source based questions.
5. Section C Questions no. 20 to 23 are Short Answer (SA) type questions. Answers to these questions shall be written in 80 to 100 words.
6. Section D - Questions no. 24 to 28 are Long Answer (LA) type questions. Answers to these questions shall be written in 120 to 150 words.
7. Section E - Questions no. 29 and 30 are Map-based questions.

खंड-क

इस खंड में 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. निम्न में से कौन जनसंख्या की वृद्धि का घटक नहीं है ?

- A. जन्म दर
- B. मृत्यु दर
- C. प्रवास
- D. उत्प्रवास

2. "भूमि पर लोग किस प्रकार वितरित हैं।"

- A. वितरण
- B. प्रवास
- C. प्राकृतिक वृद्धि
- D. घनत्व

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चुनिए।

1. अभिकथन : वृद्धि समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करती है।
2. कारण : इसका चिन्ह सदैव धनात्मक होता है।

विकल्प :

- (A) दोनों कथन 1 व 2 गलत हैं।
- (B) कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है।
- (C) दोनों कथन सही हैं और कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या करता है।
- (D) दोनों कथन सही हैं और कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या नहीं करता है।

4. वे प्रदेश जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं उस खेती को क्या कहते हैं ?

- A. ट्रक फार्मिंग
- B. बाजार बागवानी
- C. बागवानी
- D. विटीकल्चर

5. युग्म-I और युग्म-II को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।

	युग्म-I		युग्म-II
i	लौह उद्योग	1	खनिज आधारित
ii	चमड़ा उद्योग	2	वन आधारित
iii	लाख उद्योग	3	पशु आधारित
iv	वस्त्र उद्योग	4	उपभोक्ता सामान

- A. i-1, ii-2, iii-3, iv-4
- B. i-4, ii-3, iii-2, iv-1
- C. i-1, ii-3, iii-2, iv-4
- D. i-3, ii-2, iii-1, iv-4

6. निम्नलिखित राज्यों को न्यूनतम से उच्चतम जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें।

1. बिहार 2. पश्चिम बंगाल 3. उत्तर प्रदेश 4. महाराष्ट्र

- A. 3,4,2,1
- B. 1,2,3,4

SECTION-A

There are 1 to 17 Multiple Choice Questions in this section. All questions are compulsory.

1. Which one of the following is not a component of population growth? |

- A. Birth Rate
- B. Death Rate
- C. Migration
- D. Out-migration

2. How people are spread on the earth's surface |

- A. Distribution
- B. Migration
- C. Natural growth
- D. Density

3. Consider the following statements and choose the correct answer with the help of the given options |

- 1. Assertion: Growth refers to changes over a period of time.
- 2. Reason: It always has a positive sign.

Options:

- (A) Both statements 1 and 2 are wrong.
- (B) Statement 1 is true and statement 2 is incorrect.
- (C) Both statements are true and statement 2 correctly explains statement 1.
- (D) Both statements are true, statement 2 does not explain statement 1 correctly.

4. The regions where farmers specialize in vegetables only, the farming is known as |

- A. Truck farming
- B. Market gardening
- C. horticulture
- D. Viticulture

5. Match the column-I with Column-II and choose the correct option. |

	column-I		column-II
i	Iron industry	1	Mineral based
ii	Leather industry	2	Forest-based
iii	Lac industry	3	Animal-based
iv	Textiles industry	4	Consumer goods

- A. i-1, ii-2, iii-3, iv-4
- B. i-4, ii-3, iii-2, iv-1
- C. i-1, ii-3, iii-2, iv-4
- D. i-3, ii-2, iii-1, iv-4

6. Arrange the following states from lowest to highest population |

C. 2,1,4,3

D. 3,4,1,2

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चुनिए।

1. अभिकथन : 1951 से 1981 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रूद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है।

2. कारण : इस काल में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही अधिक थीं।

विकल्प :

(A) दोनों कथन 1 व 2 गलत हैं।

(B) कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है।

(C) दोनों कथन सही हैं और कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या करता है।

(D) दोनों कथन सही हैं और कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या नहीं करता है।

8. निम्न कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए।

"वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनार्या जा सकती।"

A. निवल बोया क्षेत्र

B. वर्तमान परती भूमि

C. बंजर व व्यर्थ भूमि

D. पुरातन परती भूमि

9. निम्न में से कौन सी गतिविधि जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं है ?

A. नदियों को आपस में जोड़ना।

B. भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना।

C. देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण।

D. प्रत्येक जिले में एक 'जल ग्राम' का चयन करना।

10. भरमौर समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ-

A. पहली पंचवर्षीय योजना

B. चौथी पंचवर्षीय योजना

C. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

D. तीसरी पंचवर्षीय योजना

11. इंदिरा गांधी शहर का निर्माण किसने कराया ?

A. नीति आयोग

B. राजीव गांधी

C. एहरलिच

D. कैवर सेन

12. इंदिरा गांधी शहर स्थित है।

A. राजस्थान

B. उत्तर प्रदेश

C. हरियाणा

D. पंजाब

13. साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ?

A. हाजीपुर

B. नई दिल्ली

C. बिलासपुर

D. जबलपुर

14. शेरशाह सूरी ने गाँव लूंक रोड को किन दो स्थानों के बीच बनाया था ?

A. कोलकाता से पेशावर

B. अमृतसर से पेशावर

1. Bihar 2. West Bengal 3. Uttar Pradesh 4. Maharashtra
- A. 3,4,2,1
B. 1,2,3,4
C. 2,1,4,3
D. 3,4,1,2

7. Consider the following statements and choose the correct answer with the help of the given options:

1. Assertion: 1951-1981 is referred to as a period of stagnant or stationary phase of growth of India's population.

2. Reason: Both birth and death rates were high in this period.

Options:

(A) Both statements 1 and 2 are wrong.

(B) Statement 1 is true and statement 2 is incorrect.

(C) Both statements are true and statement 2 correctly explains statement 1.

(D) Both statements are true, statement 2 does not explain statement 1 correctly.

8. Choose the correct option for the given statement

"The land which normally cannot be brought under cultivation with the available technology".

A. Net area sown

B. Current Fallow

C. Barren and Wastelands

D. Fallow other than current fallow

9. Which one of the following activities is not proposed under Jal Kranti Abhiyan?

A. Interlinking of rivers

B. Reducing groundwater pollution

C. Construction of Arsenic-free wells in selected areas of the country

D. To select one 'Jal Gram' in each district.

10. The Bharmaur Integrated Tribal Development Programme was initiated during the

A. First Five-Year Plan

B. Fourth Five-Year Plan

C. Fifth Five-Year Plan

D. Third Five-Year Plan

11. Who constructed the Indira Gandhi Canal?

A. Niti Aayog

B. Rajiv Gandhi

C. Ehrlich

D. Kanwar Sain

12. The Indira Gandhi Canal is situated in

A. Rajasthan

B. Uttar Pradesh

C. Haryana

D. Punjab

13. The South East Central Railway has its Headquarter at

A. Hajipur

B. New Delhi

C. Bilaspur

- C. दिल्ली से अमृतसर
D. दिल्ली से लाहौर

संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर - करने में सहायता की। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल-तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों द्वारा हो रहा है।

15. निम्न में से कौन संचार सेवाएँ में शामिल नहीं हैं ?

- A. तथ्य और विचार
B. सड़क
C. संदेश
D. शब्द

16. निम्नलिखित में से किसने संचार को परिवहन से स्वतंत्र बना दिया है ?

- A. इंटरनेट
B. मोबाइल
C. साइबर स्पेस
D. सोशल मीडिया

17. किराके आविष्कार से संदेशों को संरक्षित करने में मदद मिली है ?

- A. लेखन
B. उपग्रह
C. पत्र
D. फैक्स

- D. Jabalpur
14. Between which two places was the Grand Trunk Road built by Sher Shah Suri
- A. Kolkata to Peshawar
 - B. Amritsar to Peshawar
 - C. Delhi to Amritsar
 - D. Delhi to Lahore

Communication services involve the transmission of words and messages, facts, and ideas. The invention of writing preserved messages and helped to make communication dependent on means of transport. These were actually carried by hand, animals, boat, road, rail, and air. That is why all forms of transport are also referred to as lines of communication. Where the transport network is efficient, communications are easily disseminated. Certain developments, such as mobile telephony and satellites, have made communications independent of transport. All forms are not fully disassociated because of the cheapness of the older systems. Thus, very large volumes of mail continue to be handled by post offices all over the world.

15. Communication services do not include
- A. Facts and ideas
 - B. Roads
 - C. Messages
 - D. Words
16. Which one of the following has made communications independent of transport?
- A. Internet
 - B. Mobile
 - C. Cyberspace
 - D. Social media
17. Whose invention has helped in preserving the messages ?
- A. Writing
 - B. Satellites
 - C. Letter
 - D. Fax

खंड-ख

प्रश्न संख्या 18 और 19 स्रोत आधारित प्रश्न है।

18. दिए गए स्रोत का अध्ययन ध्यान पूर्वक कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3x1=3

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	वृद्धि दर*	
		निम्न मर्यादा	वृद्धि का %
1901	218396327	-----	-----
1911	272091360	(+) 13697863	(+) 5.75
1921	251321213	(-) 772117	(-) 0.31
1931	278977298	(+) 27656025	(+) 11.60
1941	318960580	(+) 39683342	(+) 14.22
1951	361088000	(+) 42120485	(+) 13.31
1961	419254771	(+) 57682873	(+) 21.51
1971	548159652	(+) 108924881	(+) 24.89
1981	684129097	(+) 135169445	(+) 24.66
1991	846302688	(+) 162973591	(+) 23.85
2001	1028610328	(+) 182307640	(+) 21.54
2011**	1210193422	(+) 181583094	(+) 17.64

18.1 कौन सा दशक जनसंख्या की वृद्धि दर की नकारात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है ?

18.2 किन्हीं दो दशकों का उल्लेख कीजिए, जिनमें दशकीय वृद्धि की दर को लगातार गिरती प्रवृत्ति के रूप में दिखाया गया है।

18.3 जनसंख्या वृद्धि दर की घटती प्रवृत्ति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए।

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 18 के स्थान पर है।

18.1 किरा जनसंख्या वर्ष को विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं ?

18.2 भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में दर्ज की गयी है ?

18.3 जनसंख्या वृद्धि दर की घटती प्रवृत्ति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए।

19. दिए गए स्रोत का अध्ययन ध्यान पूर्वक कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3x1=3

यह प्रमुख रेलमार्ग पश्चिम में रॉट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशां सहासागर तट पर स्थित व्लाडिवोस्टक तक मास्को, कज़ान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्क, चिता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लम्बा (9,322 कि.मी.) दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पारमहाद्वीपीय रेलमार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेलमार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनीसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इरकुस्टस्क एक फर केंद्र है। इस रेलमार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजनामय मार्ग भी हैं, जैसे ओडेसा (यूक्रेन), कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद (उज्बेकिस्तान), उलन बटोर (मंगोलिया) और रोण्या (स्मक्टेन) चीन में बीजिंग की ओर।

19.1 रेलवे लाइन और उस देश का नाम बताइए जहां यह स्थित है।

19.2 यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्यों है? कोई दो कारण बताएं।

19.3 यह रेलमार्ग कौन से प्राकृतिक स्थलों से होकर गुजरता है ?

SECTION-B

Question No.18 and 19 are source based questions

18. Read the given source carefully and answer the questions that follow:

3x1=3

Census Years	Total Population	Growth Rate*	
		Absolute Number	% of Growth
1901	238396327		
1911	252663390	(+) 13697063	(+) 5.75
1921	251321213	(-) 772117	(-) 0.31
1931	278977238	(+) 27656025	(+) 11.69
1941	318660580	(+) 39683342	(+) 14.22
1951	361088090	(+) 42420485	(+) 13.31
1961	439234771	(+) 77682873	(+) 21.51
1971	548150652	(+) 108924881	(+) 24.89
1981	683329697	(+) 135169445	(+) 24.66
1991	836392688	(+) 162971591	(+) 23.85
2001	1028919328	(+) 182307640	(+) 21.51
2011**	1210193322	(+) 181583694	(+) 17.61

18.1 Which decade has shown the negative trend of growth rate of the population?

18.2 Mention any two decades in which the percentage of decadal growth has shown a regular downward trend.

18.3 Mention any two reasons for the declining trend in the population growth rate.

Note:The following questions are for the visually impaired candidates only in lieu of Q.No.18

18.1 Which census year is known as the dividing year?

18.2 In which decade has the highest population growth been recorded in India?

18.3 Mention any two reasons for the declining trend in the population growth rate.

19. Read the given source carefully and answer the questions that follow:

3x1=3

This is a trans-siberian Railways major rail route that runs from St. Petersburg in the west to Vladivostok on the Pacific Coast in the east passing through Moscow, Ufa, Novosibirsk, Irkutsk, Chita and Khabarovsk. It is the most important route in Asia and the longest (9,332 km) double-tracked and electrified transcontinental railway in the world. It has helped in opening up its Asian region to West European markets. It runs across the Ural Mountains Ob and Yenisei rivers. Chita is an important agrocentre and Irkutsk, a fur centre. There are connecting links to the south, namely, to Odesa (Ukraine), Baku on the Caspian Coast, Tashkent (Uzbekistan), Ulan Bator (Mongolia), and Shenyang (Mukden) and Beijing in China.

19.1 Name the Railway line and the country where it lies?

19.2 State two reasons why it is the most important route in Asia?

19.3 Through which natural features does this railway pass?

खंड-ग

प्रश्न संख्या 20 से 23 लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं।

20. नव-निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इसकी किन्हीं दो विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

1 + 2 = 3

अथवा

"आदिम समाजों के लिए भौतिक पर्याय रखा प्रकृति माँ है" इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

1 x 3 = 3

21. पाइपलाइन परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

1 x 3 = 3

22. गुच्छित बस्तियों की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें।

1 x 3 = 3

अथवा

परोक्ष बस्तियों की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें।

23. विशाखापट्टनम समुद्री पत्तन का विश्व व्यापार में महत्व का मूल्यांकन कीजिए।

1 x 3 = 3

खंड-घ

प्रश्न संख्या 24 से 28 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं।

24. संसार में प्रचलित 'रोपण कृषि' की किन्हीं पाँच विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

1 x 5 = 5

25. विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को उदाहरण सहित समझाइये।

1 x 5 = 5

अथवा

मानव विकास की अवधारणा किसने दी? मानव विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सशक्तिकरण के महत्व को न्यायसंगत ठहराएँ।

26. "अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत अधिक टिकाऊ पारिस्थितिक-अनुकूल और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं।" उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए।

1 x 5 = 5

अथवा

"भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण नीति अपनाई गई थीं इस कथन को प्रमाणित कीजिए।

27. अन्तर्-द्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में भारतीय समुद्री पत्तनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

1 x 5 = 5

अथवा

भारतीय रेल की कार्यक्षमता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाए गए किन्हीं पाँच कदमों की उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।

28. नमामि गंगे कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।

1 x 5 = 5

Section-C

Question number 20 to 23 are short answer type

20. Who introduced the concept of Neo-determinism? Explain any two features of this concept.

Or

"The physical environment for primitive societies becomes Mother Nature". Analyze the statement.

21. Explain the importance of pipeline as a mode of transport.

22. Mention any three features of Clustered Settlements.

Or

Mention any three features of Dispersed Settlements.

23. Evaluate the importance of Visakhapatnam sea port in world trade.

42=3

1x3=3

1x3=3

1x3=3

1x3=3

Section-D

Question number 24 to 28 are long answer type.

24. Explain any five features of plantation agriculture practised in the world.

25. Explain the physical factors affecting the distribution of population in the world with examples.

Or

Who gave the concept of Human development? Justify the importance of empowerment as an important pillar of human development.

26. The non-conventional energy sources provide more sustained, eco-friendly form of cheaper energy. Support the statement with suitable examples.

Or

"After independence various important strategies were adopted for agricultural development in India." Substantiate the statement.

27. Evaluate the role of Indian sea-ports as international gateways.

Or

Explain with examples any five steps taken to increase the performance and quality of Indian Railways.

28. Explain the important objectives of Namami Ganga programme.

1x5=5

1x5=5

1x5=5

1x5=5

1x5=5

खंड - ड.

(प्रश्न संख्या 29 एवं 30 मानचित्र आधारित प्रश्न हैं।)

29. संसार के दिए गए राजनीतिक रेखा-मानचित्र पर A, B, C, D, E, F और G सात भौगोलिक लक्षण दिखाए गए हैं। इनमें से किन्हीं पाँच को पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए :

1x5=5

- A. एशिया का अन्तर्गामी तृतीय वायुपत्तन
- B. लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर
- C. उत्तर अमेरिका का एक प्रमुख समुद्री-पत्तन
- D. पार-ऑस्ट्रेलियाई रेलमार्ग का सिरे का स्टेशन
- E. अफ्रीका में चलवासी पशुचारण का एक प्रमुख क्षेत्र
- F. विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र
- G. यूरोप का अन्तर्गामी तृतीय वायुपत्तन

Section- E

(Question No. 29 & 30 are Map Based Questions.)

29. On the given political outline map of the world seven geographical features have been marked as A, B, C, D, E, F and G. Identify any five and name them on the lines marked near them.

1x5=5

5

- A. An International Airport in Asia.
- B. A canal linking Red sea with Mediterranean sea.
- C. A major seaport in North America.
- D. A terminal station on the Trans-Australian Railway.
- E. A major area of nomadic herding in Africa.
- F. A major area of extensive commercial grain farming.
- G. International airport of Europe.

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 के स्थान पर हैं ।

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच के उत्तर लिखिए :

- 29.1 यमन में अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन का नाम लिखिए ।
- 29.2 कौन सी नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है ?
- 29.3 कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख समुद्री-पत्तन का नाम लिखिए ।
- 29.4 पार-ऑस्ट्रेलियाई रेलमार्ग के किसी सिरे के स्टेशन का नाम लिखिए ।
- 29.5 दक्षिणी अफ्रीका के प्रमुख चलवासी पशुचारण क्षेत्र का उल्लेख कीजिए ।
- 29.6 विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के किसी एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए ।
- 29.7 ब्रिटेन के किसी एक वायुपत्तन का नाम लिखिए ।

भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा-मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए :

5

- 30.1 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य —
- 30.2 उच्चतम नगरीकरण स्तर वाला राज्य —
- 30.3 जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य —
- 30.4 कोरापुट — बॉक्साइट खानें —
- 30.5 झरिया कोयला खानें —
- 30.6 मंगलूर समुद्री-पत्तन
- 30.7 पंजाब में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 30 के स्थान पर हैं ।

निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच के उत्तर लिखिए :

- 30.1 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम लिखिए ।
- 30.2 उच्चतम नगरीकरण स्तर वाला राज्य कौन सा है ?
- 30.3 जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है ?
- 30.4 कोरापुट-बॉक्साइट खानें किस राज्य में स्थित हैं ?
- 30.5 उस राज्य का उल्लेख कीजिए जहाँ झरिया कोयला खानें स्थित हैं ।
- 30.6 मंगलूर समुद्री-पत्तन भारत के किस तट पर स्थित है ?
- 30.7 पंजाब में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन का नाम लिखिए ।

Note : The following questions are for Visually impaired candidates only in lieu of Question No. 29.

Attempt any five of the following :

- 29.1 Name the international airport of Yemen.
 - 29.2 Which canal links Red sea with Mediterranean Sea ?
 - 29.3 Name the major sea port of Canada along its west coast.
 - 29.4 Mention either of the terminal stations on the Trans-Australian Railway.
 - 29.5 Mention the major nomadic herding region of South Africa.
 - 29.6 Name any one major area of extensive commercial grain farming.
 - 29.7 Name any one International airport of Great Britain.
30. On the given political outline map of India, locate and label any five of the following :
- 30.1 A state with highest level of population density.
 - 30.2 A state with highest level of urbanisation.
 - 30.3 A state leading in the production of jute.
 - 30.4 Koraput-bauxite mines.
 - 30.5 Jharia coal mines.
 - 30.6 Mangaluru seaport.
 - 30.7 An international airport in Punjab.


5

Note : The following questions are for the Visually impaired candidates only in lieu of the Question No. 30.

Attempt any five of the following :

- 30.1 Name the state with highest level of population density.
- 30.2 Which is the state of the highest level of urbanisation ?
- 30.3 Which state is leading in the production of jute ?
- 30.4 In which state Koraput-bauxite mines are located ?
- 30.5 Mention the state where Jharia coal mines are located.
- 30.6 Along which coast of India, Mangaluru seaport is located ?
- 30.7 Name international airport located in Punjab.

प्रश्न सं. 29 के लिए मानचित्र
Map for Q. No. 29



प्रश्न सं. 30 के लिए मानचित्र
Map for Q. No. 30

----- Cut Here ----- यहाँ से काटें
----- Cut Here ----- यहाँ से काटें
----- Cut Here ----- यहाँ से काटें

